

か  
9課  
ごみを だす  
फोहोर फाल्नु



もくひょう  
目標  
लक्ष्य

1. ごみを <sup>わ</sup> 分けます  
फोहोर छुट्याउने
2. わからないとき <sup>ひと</sup> 人に ききます  
नबुझेको खण्डमा मान्छेलाई सोध्ने
3. ごみを <sup>だ</sup> 出します  
फोहोर फाल्नु



# 1.

## ごみを<sup>わ</sup>分けます फोहोर छुट्याउने

どうしてごみをわけますか  
किन फोहोर छुट्याउँछौ?



ごみをわけます  
gomi o wakemasu  
फोहोर छुट्याउने



しげんごみ  
shigengomi  
पुन प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर



リサイクルします  
risaikuru shimasu  
पुन प्रयोग गरिन्छ

わたしのまちの  
リサイクル

あなたの町で資源ごみがどのようにリサイクルされているかわかります。  
तपाईंको शहरमा पुन प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर कसरी पुन प्रयोग गरिन्छ भनेर थाहा छ  
<https://www.jcpra.or.jp/mytown/tabid/1063/index.php>

(公財) 日本容器包装リサイクル協会  
The Japan Containers and Packaging Recling Association






दोनों गोमिबुक्रो में कौन सा फोहोर फालु राख्नुहुन्छ?



① शुकुहिनटोरे  
shokuhin toree



② पेट्टोबोरो  
pettobotoru



③ स्पूरेकान  
supuree kan



④ तामगोपाकु  
tamago pakku



⑤ सीडी  
CD



⑥ ओमुत्सु  
omutsu



⑦ कान  
kan



⑧ फुराईपान  
furaipan



⑨ बिन  
bin



⑩ नामगोमि  
namagomi



⑪ कान्देन्चि  
kandenchi



⑫ ग्युन्युपाकु  
gyuunyu pakku



सुपरमार्केटले कस्तो प्रकारको फोहोर सङ्कलन गर्छ?

ट्रेय वा कन्टेनरहरू राम्ररी धुनुहोस्



リサイクルマークを さがします रिसाइक्लिड चिन्ह खोजी गर्नुहोस्

容器にリサイクルマークがついています。マークを見て、ごみを分けましょう。

कन्टेनरहरूमा रिसाइकल चिन्ह छ संकेतहरू हेर्नुहोस् र आफ्नो फोहोर छुट्याउनुहोस्



पेट्टबोटल  
pettobotoru



कामि  
kami



आरुमि  
arumi



सुचिीरु  
suchiiru



पुआसुचिकुकु  
purasuchikku



कामि पाकुकु  
kami pakku



A : पुआसुचिकुकु माकु गा अरिमासुका।

B : है, अरिमासु। / ीीे, अरिमासेन।

A : Prasuchikku maaku ga arimasuka.

B : Hai, arimasu. / Iie, arimasen.



## 2. わからないとき <sup>ひと</sup> 人に ききます नबुझैको खण्डमा मान्छेलाई सोध्ने

गमिाेवाकेकातएाे किक्किमासु फोहोर कसरी छुट्याउने भनेर सोध्नुहोस्

A : すみません、おむつ は もえるごみ ですか。

B : はい、そうです。

A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, omutsu wa moeru gomi desuka.

B : Hai, soodesu.

A : Wakarimashita. Arigatogozaimasu.



A : すみません、かんでんち は もえるごみ ですか。

B : いいえ、もえないごみ です。

A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, kandenchi wa moeru gomi desuka.

B : Iie, moenai gomi desu.

A : Wakarimashita. Arigatogozaimasu.

いつ ごみを だすか ききます  
फोहोर कहिले फाल्ने भनेर सोध्नुहोस्



まいしゅう  
毎週 maishuu  
हरेक हप्ता  
ようび  
曜日 yoobi  
बार

あさ  
朝 asa बिहान



A : すみません、もえるごみ は いつ だしますか。  
B : げつようび と もくようび です。  
あさ 5じ から 8じ までに だします。  
A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, moeru gomi wa itsu dashimasuka.  
B : Getsuyoobi to Mokuyoobi desu.  
Asa 5 ji kara 8 ji madeni dashimasu.  
A : Wakarimashita. Arigatoogozaimasu.

だれが ごみおきばを そうじしますか。  
फोहोर राख्ने ठाउँ कसले सफा गर्छ?



# 3. <sup>だ</sup>ごみを出します फोहोर फाल्नु

गोमि रूलरुग वरुकरि मरुसु  
फोहोरको नियमहरू बुझ्नेको छु



आनातोरु मरुचोरु गोमि रूलरु कुरीतेकुदरुसुरी।  
तपुईको शहरको फोहोर वुवसुथरुपन नियमहरू लेख्नुहोस्

|  |   |
|--|---|
| <p>1.<br/>दुकोने गोमि रु दरुशरुमरुसुकरु।<br/>Dokoni gomi o dashimasuka.</p>            |   |
| <p>2.<br/>इतु गोमि रु दरुशरुमरुसुकरु।<br/>Itsu gomi o dashimasuka.</p>                 | <p>मुरेरुगुमि moeru gomi</p> <p>मुरेनरुइगुमि moenai gomi</p> <p>पुलरुसुचरुकुकु prasuchikku</p> <p>करुनरुबुनरुपेटुतुबुतुरु<br/>kan·bin·pettobotoru</p> |
| <p>3.<br/>नरुनुजुने गोमि रु दरुशरुमरुसुकरु।<br/>Nanji ni gomi o dashimasuka.</p>       |   |
| <p>4.<br/>दुदुके दुगुमरुबुकुरु रु करुइमरुसुकरु।<br/>Dokode gomibukuro o kaimasuka.</p> |   |

आनातोरु कुनेतु नुहोनतु गोमि रूलरु हुरु उनुनुजेदुसुकरु। चुगुरीमरुसुकरु।  
तपुईको देशमरु रु जरुपानमरु फोहुर फरुलने सडुडनुधुी नियमहरू ऐकै छनु?  
फरुकु छु?

こんなとき どうしますか。  
यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ?

きょうは燃えないごみの日です。あなたはドライヤーを袋に入れずに出しました。近所の人が見て注意しました。あなたは何と言いますか。

आज जलाउन नमिल्ले फोहोरको दिन हो तपाईंले हेयर ड्रायरलाई झोलामा नराखी त्यसै फाल्नु भएको थियो छिमेकीहरूले यो देखेर चेतावनी दिनुभयो तपाईं के भन्नुहुन्छ?



A : おはようございます。

B : おはようございます。あっ、ドライヤーを すてますか。

A : はい。

B : じゃ、もえないごみのふくろに いれなければなりませんよ。

A :  
-----

A : Ohayoogozaimasu.

B : Ohayoogozaimasu. A, doraiyaa o sutemasuka.

A : Hai.

B : Ja, moenaigomi no fukuro ni irenakereba narimasenyo.

A :  
-----

ごみについて ちゅういされたことが ありますか。  
के तपाईंलाई कहिल्यै फोहोरको बारेमा चेतावनी दिइएको छ?



しつもの ことば  
सोधपुछ

ぎもんし Gimonshi सोधपुछ

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| いつ<br>itsu       | कहिले | いつ ごみを だしますか。<br>Itsu gomi o dashimasuka.<br>कहिले फोहोर फाल्नुहुन्छ?    |
| どこ<br>doko       | कहाँ  | どこに ごみを だしますか。<br>Doko ni gomi o dashimasuka.<br>फोहोर कहाँ फाल्नुहुन्छ? |
| だれ<br>dare       | कसले  | だれが ごみを だしますか。<br>Dare ga gomi o dashimasuka.<br>कसले फोहोर फाल्नु ?     |
| なん<br>nan        | के    | これは <u>なん</u> ですか。<br>Kore wa <u>nandesuka</u> .<br>यो के हो ?           |
| なに<br>nani       | के    | <u>なに</u> を すてますか。<br>Nani o sutemasuka.<br>के फाल्नु हुन्छ ?            |
| どうして<br>dooshite | किन   | どうして ごみを わけますか。<br>Dooshite gomi o wakemasuka.<br>किन फोहोर छुट्याउँछौ?  |

ようび  
बार

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| げつようび Getsu yoobi<br>सोमबार | きんようび Kin yoobi<br>शुक्रबार        |
| かようび Ka yoobi<br>मङ्गलबार   | どようび Do yoobi<br>शनिबार            |
| すいようび Sui yoobi<br>बुधबार   | にちようび Nichi yoobi<br>आइतबार        |
| もくようび Moku yoobi<br>बिहीबार | なんようび Nan yoobi<br>हप्ताको कुन दिन |



水曜日

すいようび  
बुधबार

1・3 金曜日

1・3 きんようび  
महिनाको पहिलो र तेस्रो